



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2001/अग्रहायण 7, 1923

No. 871]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2001/AGRAHAYANA 7, 1923

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2001

का. आ. 1175(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के भाग-2 तथा भाग-3 की धारा (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय उपशीर्ष 0105 के अंतर्गत जीवन्त कुक्कुट की सभी श्रेणियों के ग्रांड पैरेंट स्टॉक के आयात पर प्रतिबंध लगाती है तथा जीवन्त कुक्कुट के ग्रांड पैरेंट का आयात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले केवल स्वास्थ्यकर आयात परमिट के जरिए अनुमत होगा—

अनुसूची

भारत में जीवन्त कुक्कुट के ग्रांड पैरेंट स्टॉक के आयात की प्रक्रिया

भारत में आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण अध्याय के 0105 उपशीर्ष के तहत आने वाले कुक्कुट के सभी वर्गों के ग्रांड पैरेंट स्टॉक (जी0 पी0 एस0) का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाए, नामतः:

- (1) खंड (3) के तहत जारी वैध परमिट के बगैर भारत में किसी ग्रांड पैरेंट स्टॉक का आयात नहीं किया जाएगा;
- (2) थल, वायु अथवा समुद्र द्वारा परेषण के आयात के परमिट के लिए सभी प्रार्थना पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार बनाए जाएंगे और परेषण की प्रत्याशित पहुंच के छः सप्ताह पूर्व भेजे जाएंगे। प्रार्थनापत्र तीन प्रतियों में संयुक्त सचिव(व्यापार), व्यापार प्रभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाएंगे।

(3) (i) कुक्कुट के ग्रांड पैरेंट स्टॉक के आयात के लिए स्वास्थ्यकर आयात परमिट जारी किया जाएगा बशर्ते कि आयात संबंधी खतरों का व्यापक विश्लेषण करने के बाद संबंधित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इन परेषणों के आयात से पशु तथा मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) आयात संबंधी खतरों का विश्लेषण खतरा विश्लेषण के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा यह विश्लेषण आयात करने वाले देश में रोग की स्थिति और अपने देश में रोग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(iii) यदि आयात खतरों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे विशिष्ट रोगों, जो इस समय देश में मौजूद नहीं हैं, के उत्पन्न होने का खतरा है और जो देश में मानव तथा कुक्कुट स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं तो परमिट जारी करने से इनकार कर दिया जाएगा।

(iv) आयात परमिट में कुछ विशिष्ट शर्तें रखी जाएंगी जिन्हें परेषणों के संबंध में पूरा करना होगा जिनमें स्वास्थ्य न्याचार में परमिट तथा संगरोध विनियमन जारी होने के समय संलग्न की जाने वाली शर्तों को पूरा करना भी शामिल होगा।

(v) इस खंड के तहत जारी आयात परमिट छः महीने की अवधि के लिए वैध होगा किन्तु आयातक के अनुरोध और लिखित रूप में रिकार्ड कारणों से संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगे और छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4) जी0 पी0 स्टॉक के सभी परेषण दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा मद्रास स्थित केवल समुद्री पत्तनों, हवाई अड्डों अथवा आई सी डी से आयात किए जाएंगे जहां पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र मौजूद हैं।

(5) (1) प्रवेश स्थल पर पहुंचने पर ग्रांड पैरेंट स्टॉक के परेषण की जांच स्वास्थ्यकर आयात परमिट में दी गई विशिष्ट शर्तों और पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार जहां कहीं भी अपेक्षित हो; पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी अथवा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है।

(2) पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी अथवा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी पशु संगरोध प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक समझे जाने वाले परेषणों की जांच के बाद भारत में परेषण के प्रदेश अथवा मूल देश में परेषण की वापसी अथवा खराबी को जनहित के लिए संगरोध स्वीकृति देंगे।

(6) आयातकर्ता का यह दायित्व होगा कि;

(क) प्रवेश पत्तन के संबंधित पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र पर जी0 पी0 स्टॉक का परेषण पहुंचने के कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दें।

(ख) ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक के परेषण को संबंधित पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र अथवा जांच और/अथवा परीक्षण के स्थान पर लाना जैसा कि विभाग अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित है।

(ग) परेषण को पशु संगरोध केन्द्र से खोलना, पुनः पैक करना और चढ़ाना अथवा उतारना; तथा

(घ) विभाग द्वारा विधिवत् प्राधिकृत संगरोध अथवा पशुचिकित्साधिकारी के निदेशों के अनुसार परीक्षण तथा संगरोध स्वीकृत के उपरान्त उन्हें हटाना।

(7) किसी भी परेषण का आयात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक परेषण के मूल देश के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय स्वास्थ्यकर प्रमाण पत्र को कवर नहीं कर लिया जाता।

(8) केन्द्र सरकार जनहित में कुक्कुट के जी पी स्टॉक के किसी वर्ग के आयात के परमिट संबंधी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को शिथिल कर सकती है।

प्रपत्र

जीवन्त कुक्कुट के ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक के आयात के संबंध में परमिट के लिए आवेदन

सेवा में,

संयुक्त सचिव(ट्रेड),
भारत सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

अधोहस्ताक्षरी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जीवन्त कुक्कुट के ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक के आयात करने के प्राधिकार हेतु परमिट के लिए आवेदन करता है -

(कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/टाइप करें)

1. आवेदक/फर्म/संस्थान का नाम और पता:
2. परेषक का नाम तथा पता:
3. आयात किए जाने वाले कुक्कुट के ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक का सही विवरण:

क्र.सं.	विवरण (प्रजातियाँ)	आई टी सी (एच एस) कोड	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	मूल देश

4. वह देश और स्थान जहां जीवन्त ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक पैदा हुए तथा नस्ल:
5. ग्रांड पेरेन्ट स्टॉक के संबंध में विगत में लिए गए पूर्व परमितों का ब्यौरा (यदि कोई हो):
6. जहाज पर चढ़ाने वाला विदेशी पत्तन
7. भारत में परेषण के पहुंचने की संभावित तारीख
8. भारत में प्रवेश पर *वायु/समुद्र/पत्तन आई सी डी सी का नाम

मैं अतिरिक्त घोषणा पत्र, परमिट में उल्लिखित यदि कोई हो, के साथ सरकारी स्वास्थ्यकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

आयातक अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

संदर्भ संख्या और तारीख

स्थान:

आयातक अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट का नाम तथा डाक का पता

दिनांक:

* जो लागू न हो उसे काट दें।

[फा. सं. 109-6/2001-ट्रेड]

चित्रा गौरी लाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2001

S.O. 1175(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 and section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby restricts the import of Grand parent stock of all categories of live poultry falling under Chapter Subheading 0105 of ITC (HS) Classification and orders that the import of these Grand parent stock of live poultry shall be allowed only against a Sanitary Import Permit to be issued by this Department as per the procedure laid down in the schedule annexed to this notification.

SCHEDULE**Procedure for Import of Grand parent stock of live poultry into India**

The Grand parent Stock (G.P. Stock) of all categories of live poultry falling under Chapter subheading 0105 of ITC (HS) Classification shall be imported into India subject to the following conditions, namely:-

- (1) No G.P. Stock shall be imported into India without a valid permit issued under clause (3);
- (2) All applications for a permit to import consignments by land, air or sea shall be made as per annexed format and sent at least six weeks in advance of the expected arrival of the consignment. Application shall be made in triplicate to the Joint Secretary(Trade), Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Agriculture, Government of India.
- (3)
 - (i) The sanitary import permit shall be issued for import of Grand parent stock of Poultry if, after a detailed import risk analysis, the concerned authorities are satisfied that the import of the consignment will not adversely affect the health of the animal and human population.
 - (ii) The import risk analysis shall be conducted by the concerned officer of the Department on the basis of internationally recognized scientific principles of risk analysis and the analysis shall be conducted with reference to the disease situation prevailing in the exporting country vis-a-vis the disease situation of the country.
 - (iii) The issue of permit shall be refused if the results of the import risk analysis show that there is a risk of bringing in one or more specific diseases, which are not prevalent in the country and which could adversely affect the health of the human and poultry populations of this country.
 - (iv) The import permit shall lay down the specific conditions that will have to be fulfilled in respect of the consignment, including fulfillment of conditions stipulated in the health protocol to be enclosed at the time of issuance of permit and quarantine regulations in force.

- (v) The import permit issued under this clause shall be valid for a period of six months, but can be extended by the concerned authority for a further period of six months, on request from the importer and for reasons to be recorded in writing.
- (4) All consignments of G.P. Stock shall be imported only through Sea ports, Air ports or ICDs located at Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai where the Animal Quarantine & Certification Services Stations are located.
- (5) (i) On arrival, at an entry point, the consignment of G.P. stock shall be inspected by the Officer Incharge of Animal Quarantine & Certification Services Station or any other Veterinary Officer duly authorized by the Department of Animal Husbandry & Dairying, wherever required, in accordance with the specific conditions laid down in the Sanitary import permit and with general guidelines issued by the Department of Animal Husbandry & Dairying from time to time.
- (ii) The officer In charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations or other Veterinary officers authorized by the Department of Animal Husbandry & Dairying may, after inspection of the consignment as considered necessary in accordance with the quarantine procedures, shall accord quarantine clearance for the entry of the consignment into India or as required, in public interest, destruction of the consignment or return of the same to the country of origin.
- (6) It shall be the responsibility of the importer:-
- (a) To inform atleast 15 days in advance before arrival of consignment of G.P. Stock to the concerned Animal Quarantine & Certification Services Station of port of entry.
 - (b) To bring the consignment of G.P. stock to the concerned Animal Quarantine & Certification Services Station, or to place of inspection and/or testing as directed by the Department or the Veterinary Officer duly authorized on this behalf;
 - (c) To open, repack and load into or unload from the Animal Quarantine Station; and
 - (d) To remove them after inspection & Quarantine clearance, according to the directions of the Quarantine or Veterinary officer duly authorized by the Department.

(7). No consignment shall be imported unless covered by an official Sanitary certificate issued by the authorized officer of the country of origin of the consignment.

(8) The Central Government may, in public interest, relax any of the conditions specified under this schedule relating to the permit in relation to the import of any category of G.P. Stock of Poultry.

APPLICATION FORM FOR PERMIT TO IMPORT of GRAND PARENT STOCK of LIVE POULTRY

To

The Joint Secretary (Trade)
Government of India
Department Of Animal Husbandry & Dairying
Ministry Of Agriculture,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of Grand parent stock of live poultry as per details given below --

(Please write/type in block letters)

1. Name and address of the Applicant/firm/institution:
2. Name and address of the consigner
3. Exact description of Grand Parent Stock of Poultry to be imported :

S.No	Description (Species)	ITC(HS) code	Quantity	CIF value	Country of Origin

4. Country and locality in which the live G.P Stock was born and bred:
5. Detail of earlier permits in respect of G.P stock obtained in past (if any):
6. Foreign port of shipment :
7. Approximate date of arrival of the consignment in India :

8. Name of * air/sea port/ICDs of entry in India :

I undertake to produce an official veterinary certificate with additional declaration, if any, as specified in the permit

Signature of the importer or his authorized agent.

Ref. No. & Date

Place:

Name and postal address of the importer or his authorized agent

-
- strike out whichever is not applicable.

[F. No. 109-6/2001-Trade]

CHITRA GOURI LAL, Jt. Secy.